



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड—3 उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117]
No. 117]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1978/फाल्गुन 17, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1978/PHALGUNA 17, 1899

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1978

का० भा० 153(अ).--राष्ट्रपति ने तारीख 3 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या यथास्थिति संघ राज्यक्षेत्रों के निर्वाचकगण के सदस्यों से यह प्रपेक्षा की है कि वे राज्य सभा के लिए उतने सदस्य निर्वाचित कर दें जितने उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट किए गए हैं :--

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

भरे जाने
वाले स्थानों
की संख्या

1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	6
2. आसाम	3
3. बिहार	7
4. गुजरात	4
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. कर्नाटक	4

1

2

8. मध्य प्रदेश	5
9. महाराष्ट्र	7
10. मणिपुर	1
11. मेघालय	1
12. उड़ीसा	4
13. पंजाब	2
14. राजस्थान	3
15. तमिलनाडु	6
16. उत्तर प्रदेश	11
17. पश्चिमी बंगाल	5
18. दिल्ली	1

अतः, अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित तारीखें नियत करता है :--

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 15 मार्च, 1978 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख 16 मार्च, 1978 (बुधवार)
- (ग) अधिसूचनाएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 18 मार्च, 1978 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा 5 अप्रैल, 1978 (बुधवार)
- (ङ) निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए उस धारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट तारीख को उस

तारीख के रूप में नियत करता है जिसके
दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान
होगा—

अनुसूची

राज्य/संघ राज्य का नाम	मतदान की तारीख
1. आन्ध्र प्रदेश	27 मार्च 1978
2. आसाम	27 मार्च, 1978
3. बिहार	29 मार्च, 1978
4. गुजरात	27 मार्च, 1978
5. हरियाणा	29 मार्च, 1978
6. हिमाचल प्रदेश	27 मार्च, 1978
7. कर्नाटक	27 मार्च, 1978
8. मध्य प्रदेश	3 अप्रैल, 1978
9. महाराष्ट्र	27 मार्च, 1978
10. मणिपुर	27 मार्च, 1978
11. मेघालय	29 मार्च, 1978
12. उड़ीसा	27 मार्च, 1978
13. पंजाब	27 मार्च, 1978
14. राजस्थान	28 मार्च, 1978
15. तमिलनाडु	27 मार्च, 1978
16. उत्तर प्रदेश	28 मार्च, 1978
17. पश्चिमी बंगाल	27 मार्च, 1978
18. दिल्ली	27 मार्च, 1978

[सं० 318/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th March, 1978

S.O. 153(E).—Whereas the President has, by notification published in the Gazette of India on the 3rd March, 1978, called upon the elected members of the Legislative Assembly of each State or, as the case may be, the Electoral College for the Union Territory, specified in column 1 of the Table below to elect to the Council of States the member or members specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table, against that State or Union Territory :—

TABLE

Name of State/Union Territory	Number of seats to be filled
1	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	3
3. Bihar	7
4. Gujarat	4
5. Haryana	2
6. Himachal Pradesh	1
7. Karnataka	4
8. Madhya Pradesh	5
9. Maharashtra	7
10. Manipur	1
11. Meghalaya	1

1	2
12. Orissa	4
13. Punjab	2
14. Rajasthan	3
15. Tamil Nadu	6
16. Uttar Pradesh	11
17. West Bengal	5
18. Delhi	1

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints with respect to the said election—

- 15 March, 1978 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- 16 March, 1978 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- 18 March, 1978 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- 5 April, 1978 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed;
- for each State specified in column 1 of the Schedule below, the date specified against it in column 2 thereof as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

SCHEDULE

Name of State/Union Territory	Date of poll
1	2
1. Andhra Pradesh	27 March, 1978
2. Assam	27 March, 1968
3. Bihar	29 March, 1978
4. Gujarat	27 March, 1978
5. Haryana	29 March, 1978
6. Himachal Pradesh	27 March, 1978
7. Karnataka	27 March, 1978
8. Madhya Pradesh	3 April, 1978
9. Maharashtra	27 March, 1978
10. Manipur	27 March, 1978
11. Meghalaya	29 March, 1978
12. Orissa	27 March, 1978
13. Punjab	27 March, 1978
14. Rajasthan	28 March, 1978
15. Tamil Nadu	27 March, 1978
16. Uttar Pradesh	28 March, 1978
17. West Bengal	27 March, 1978
18. Delhi	27 March, 1978

[No. 318/78(1)]

का० आ० 154(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख 3 मार्च, 1978 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र से राज्य सभा के लिए होने वाले द्विबाहिक निर्वाचन में, उस सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय, उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

सारणी

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	मतदान का समय
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न
2. आसाम	10.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न
3. बिहार	11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न
4. गुजरात	12.00 बजे दोपहर से 3.00 बजे अपराह्न
5. हरियाणा	11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न
6. हिमाचल प्रदेश	11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न
7. कर्नाटक	10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न
8. मध्य प्रदेश	10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न
9. महाराष्ट्र	10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न
10. मणिपुर	10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न
11. मेघालय	10.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न
12. उड़ीसा	10.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न
13. पंजाब	10.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न
14. राजस्थान	10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न
15. तमिलनाडु	10.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न
16. उत्तर प्रदेश	10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न
17. पश्चिमी बंगाल	10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न
18. दिल्ली	10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.30 बजे अपराह्न

[सं० 318/78(2)]

S.O. 154(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours specified in column 2 of the Table below, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken at the biennial election to the Council of States, in the State and Union Territory specified in the corresponding entry in column 1 of the said Table, to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 3rd March, 1978.

TABLE

Name of State/Union Territory	Hours of Poll
1	2
1. Andhra Pradesh	10.00 a.m. to 4.00 p.m.
2. Assam	10.00 a.m. to 3.00 p.m.
3. Bihar	11.00 a.m. to 4.00 p.m.
4. Gujarat	12.00 noon to 3.00 p.m.
5. Haryana	11.00 a.m. to 3.00 p.m.
6. Himachal Pradesh	11.00 a.m. to 2.00 p.m.
7. Karnataka	10.00 a.m. to 1.00 p.m.
8. Madhya Pradesh	10.00 a.m. to 4.00 p.m.
9. Maharashtra	10.00 a.m. to 1.00 p.m.
10. Manipur	10.00 a.m. to 4.00 p.m.
11. Meghalaya	10.00 a.m. to 3.00 p.m.
12. Orissa	10.00 a.m. to 2.00 p.m.
13. Punjab	10.00 a.m. to 3.00 p.m.
14. Rajasthan	10.00 a.m. to 5.00 p.m.
15. Tamil Nadu	10.00 a.m. to 3.00 p.m.
16. Uttar Pradesh	10.30 a.m. to 3.30 p.m.
17. West Bengal	10.00 a.m. to 4.00 p.m.
18. Delhi	10.00 a.m. to 1.30 p.m.

[No. 318/78 (2)]

का० आ० 155(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 3 मार्च, 1978 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, उक्त राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में राज्यसभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के बारे में, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आफिसर को, रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित करता है।

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित आफिसर
1. आन्ध्र प्रदेश	सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल, हैदराबाद।
2. आसाम	श्री पी० डी० बहद्दा, सचिव, आसाम विधान सभा, दिसपुर।
3. बिहार	सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।
4. गुजरात	सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गान्धी नगर।
5. हरियाणा	सचिव, हरियाणा विधान सभा, षण्डीगढ़।
6. हिमाचल प्रदेश	सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला।
7. कर्नाटक	सचिव, कर्नाटक विधान मंडल, विधान सौध, बंगलूर।
8. मध्य प्रदेश	सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल।
9. महाराष्ट्र	अपर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय, बम्बई।
10. मणिपुर	उप-आयुक्त, मणिपुर केन्द्रीय जिला, लम्फेलपट।
11. मेघालय	सचिव, मेघालय विधान सभा, शिलांग।
12. उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा विधान सभा, भुवनेश्वर।
13. पंजाब	सचिव, पंजाब विधान सभा, षण्डीगढ़।
14. राजस्थान	सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. तमिलनाडु	सचिव, विधान सभा विभाग, मद्रास।
16. उत्तर प्रदेश	सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।
17. पश्चिमी बंगाल	सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, कलकत्ता।
18. दिल्ली	श्री एम० के० जावला, सचिव (विधि तथा न्यायिक) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।

[[सं० 318/78(3)]]

S.O. 155(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of State/Union Territory specified in column 1 of the Table below, the officer specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table to be the Returning Officer in respect of the biennial election to the Council of States to be held in the said State/Union Territory in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on 8 March, 1978.

TABLE

Name of the State/ Union Territory	Officer designated as Returning Officer
1	2
1. Andhra Pradesh	The Secretary, Andhra Pradesh Legislature, Hyderabad.
2. Assam	Shri P. D. Barooah Secretary Assam Legislative Assembly, Dispur.
3. Bihar	The Secretary, Bihar Vidhan Sabha, Sachivalaya, Patna.
4. Gujarat	The Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar.
5. Haryana	The Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.
6. Himachal Pradesh	The Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Simla.
7. Karnataka	The Secretary, Karnataka Legislature Vidhan Sabha, Bangalore.
8. Madhya Pradesh	The Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal.
9. Maharashtra	The Additional Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, Bombay.
10. Manipur	Deputy Commissioner, Manipur Central District, Lamphelpat.
11. Meghalaya	Secretary, Meghalaya Legislative Assembly, Shillong.
12. Orissa	The Secretary Orissa Legislative Assembly, Bhubaneswar.
13. Punjab	The Secretary Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.
14. Rajasthan	The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
15. Tamil Nadu	The Secretary, Legislative Assembly Department, Madras.
16. Uttar Pradesh	The Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow.
17. West Bengal	The Secretary, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta.
18. Delhi	Shri M.K. Chawla, Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, Delhi.

[No. 318/78(3)]

का० जा० 156(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी आफिसर को, उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए आयोग की अधिसूचना सं० 318/78(3),

तारीख 8 मार्च, 1978, द्वारा नियुक्त रिटनिंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है :—

सारणी	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सहायक रिटनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त आफिसर
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	उप-सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान मंडल (समितियाँ) हैदराबाद ।
2. आसाम	श्री पी० एन० हजारीका, उप-सचिव, आसाम विधान सभा, दिसपुर ।
3. बिहार	श्री जे० पी० शर्मा, उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना ।
4. गुजरात	श्री टी० एस० बरोट, उप-सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, गांधीनगर ।
5. हरियाणा	उप-सचिव, हरियाणा विधान सभा, चंडीगढ़ ।
6. हिमाचल प्रदेश	उप-सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला ।
7. कर्नाटक	संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान मंडल, विधान सौध, बंगलूर ।
8. मध्य प्रदेश	श्री बलवंत सहाय, धवर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
9. महाराष्ट्र	उप-सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल, सचिवालय, बम्बई ।
10. मणिपुर	अपर जिला मजिस्ट्रेट, मणिपुर केन्द्रीय जिला, लम्पेल्पाट ।
11. मेघालय	विशेष-कार्य अधिकारी (निर्वाचन) शिलांग ।
12. उड़ीसा	सहायक सचिव, उड़ीसा विधान सभा, भुवनेश्वर ।
13. पंजाब	उप-सचिव (आई) पंजाब विधान सभा, चंडीगढ़ ।
14. राजस्थान	उप-सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
15. तमिलनाडु	उप-सचिव, विधान सभा विभाग, मद्रास ।
16. उत्तर प्रदेश	श्री उमा शंकर, धवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ ।
17. पश्चिमी बंगाल	श्री ए० रहमान, उप-सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, कलकत्ता ।
18. दिल्ली	श्री आर० सी० जैन, धवर सचिव, (विधि एवं न्यायिक) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

[सं० 318/78(4)]

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the officer of Government specified in column 2 of the Table, below, to assist the Returning Officer, appointed vide Commission's Notification No. 318/78(3), dated 8th March, 1978, for the State/ Union Territory specified in the corresponding entry in column 1 of the said Table, in the performance of his functions:

TABLE

Name of the State/Union Territory	Officer appointed as Assistant Returning Officer
1	2
1. Andhra Pradesh	The Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature (Committees), Hyderabad.
2. Assam	Shri P. N. Hazarika, Deputy Secretary, Assam Legislative Assembly, Dispur.
3. Bihar	Shri J. P. Varma, Deputy Secretary, Bihar Vidhan Sabha, Sachivalaya Patna.
4. Gujarat	Shri T.S. Barot, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat, Gandhinagar.
5. Haryana	The Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.
6. Himachal Pradesh	The Deputy Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Simla.
7. Karnataka	The Joint Secretary, Karnataka Legislature, Vidhan Soudha, Bangalore.
8. Madhya Pradesh	Shri Balwant Sahai, Under Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal.
9. Maharashtra	The Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, Bombay.
10. Manipur	Additional District Magistrate Manipur Central District, Lamphalpat.
11. Meghalaya	Officer on Special Duty (Elections), Shillong.
12. Orissa	The Assistant Secretary, Orissa Legislative Assembly, Bhubaneswar.
13. Punjab	The Deputy Secretary (I), Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.
14. Rajasthan	The Deputy Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
15. Tamil Nadu	The Deputy Secretary, Legislative Assembly Department, Madras.
16. Uttar Pradesh	Shri Uma Shankar, Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow.
17. West Bengal	Shri A. Rahman, Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly, Calcutta.
18. Delhi	Shri R.C. Jain, Under Secretary (Law and Judicial), Delhi Administration, Delhi.

[No. 318/78 (4)]

का० भा० 157(अ).—मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित एक सदस्य श्री श्री सिंह शेखावत द्वारा अपनी पदावधि के प्रवर्धन के पूर्व त्याग-पत्र दे देने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह प्रेषणा करता है कि वे ऐसे दुर्ध रिक्ति को भरने के लिए तारीख, 5 अप्रैल 1978 (बुधवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तब्दीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-म०-प्र०/2/77/(1)]

S.O. 157(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the resignation of Shri Bharon Singh Shekhawat, a member elected to the Council of States from Madhya Pradesh before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 5 April, 1978 (Wednesday).

[No. 100/CS-MP/2/77(1)]

का० भा० 158(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-म०-प्र०/2/77(1) तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 15 मार्च, 1978 (बुधवार);

(ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 16 मार्च, 1978 (बृहस्पतिवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख 18 मार्च, 1978 (शनिवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक 3 अप्रैल, 1978 हुआ, तो मतदान होगा (सोमवार); तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त 5 अप्रैल, 1978 कर दिया जाएगा (बुधवार)।

[सं० 100/रा०स०-म०-प्र०/2/77(2)]

S.O. 158(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/2/77(1), dated 8th March, 1978 :—

(a) 15 March, 1978 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) 16 March, 1978 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 18 March, 1978 (Saturday), as the last date for withdrawal of candidatures;

(d) 3 April, 1978 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 5 April, 1978 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MP/2/77(2)]

का० आ० 159(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77 (1) तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हों तो मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77(3)]

S.O. 159(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/2/77(1), dated the 8 March, 1978.

[No. 100/CS-MP/2/77(3)]

का० आ० 160(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77 (1) तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदार्भित करता है।

[सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77(4)]

S.O. 160(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby designates the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/2/77(1) dated 8 March, 1978.

[No. 100/CS-MP/2/77(4)]

का० आ० 161(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77 (1) तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए श्री बलवंत सहाय, अवर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल की एतद्वारा नियुक्ति करता है।

[सं० 100/रा०स०-म०प्र०/2/77(5)]

S.O. 161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby appoints Shri Balwant Sahai, Under Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha, Bhopal to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MP/2/77(1) dated 8 March, 1978 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MP/2/77(5)]

का० आ० 162(अ).—उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री की, उनकी पदावधि के अवसान से पूर्व, मृत्यु हो जाने के कारण राज्यसभा में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे ऐसे दृष्टि रिक्ति को भरने के लिए तारीख 5 अप्रैल, 1978 (बुधवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के श्रौर तदधीन बनाए गए नियमों और प्रादेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(1)]

S.O. 162(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States due to the death of Shri Prakash Veer Shastri, a member elected to the Council of States from Uttar Pradesh, before the expiration of his term of office ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before 5 April, 1978 (Wednesday).

[No. 100/CS-UP/6/77(1)]

का० आ० 163(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/77 (1) तारीख 8 मार्च 1978 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम 15 मार्च, 1978 तारीख (बुधवार)
 - (ख) नामनिर्देशनों की संश्लेषा की तारीख 16 मार्च, 1978 (बृहस्पतिवार)
 - (ग) अस्थायित्व वापस लेने के लिए अंतिम 18 मार्च, 1978 तारीख (शनिवार)
 - (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक 28 मार्च, 1978 हुआ तो, मतदान होगा (मंगलवार)
 - (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा 5 अप्रैल, 1978 कर लिया जाएगा (बुधवार)
- एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100-रा०स०-उ०प्र०/6/77(2)]

S.O. 163(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/6/77(1) dated 8 March, 1978 :—

- (a) 15 March, 1978 (Wednesday), as the last date for making nomination ;
- (b) 16 March, 1978 (Thursday), as the date for the scrutiny of nomination ;
- (c) 18 March, 1978 (Saturday) as the last date for withdrawal of candidatures ;
- (d) 28 March, 1978 (Tuesday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and
- (e) 5 April, 1978 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-UP/6/77(2)]

का० आ० 164(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०/उ०प्र०/6/77(1), तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(3)]

S.O. 164(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.30 A.M. to 3.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/6/77(1), dated the 8 March, 1978.

[No. 100/CS-UP/6/77(3)]

क्रा० खा० 165(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, तारीख 8 मार्च, 1978 की अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(1) के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा लखनऊ को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(4)]

S.O. 165(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/6/77(1) dated 8 March, 1978.

[No. 100/CS-UP/6/77(4)]

क्रा० खा० 166(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा पदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(1) तारीख 8 मार्च, 1978 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए, श्री उमा शंकर, अवर सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए ए तद्वशा नियुक्त करता है।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/6/77(5)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri Uma Shankar, Under Secretary, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Lucknow, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/6/77(1), dated 8 March, 1978, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-UP/6/77(5)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

